

## sheesh gang ardhang parvati lyrics

source :->bhajansimran.com

शीश गंग अर्धग पार्वती  
सदा विराजत कैलासी  
नंदी भृंगी नृत्य करत हैं  
धरत ध्यान सुर सुखरासी।।

शीतल मन्द सुगन्ध पवन  
बह बैठे हैं शिव अविनाशी  
करत गान गन्धर्व सप्त स्वर  
राग रागिनी मधुरासी।।

यक्षरक्ष भैरव जहँ डोलत  
बोलत हैं वन के वासी  
कोयल शब्द सुनावत सुन्दर  
भ्रमर करत हैं गुंजासी।।

कल्पद्रुम अरु पारिजात तरु  
लाग रहे हैं लक्षासी  
कामधेनु कोटिन जहँ डोलत  
करत दुग्ध की वर्षासी।।

सूर्यकान्त सम पर्वत शोभित  
चन्द्रकान्त सम हिमराशी  
नित्य छहों ऋतु रहत सुशोभित  
सेवत सदा प्रकृति दासी।।

ऋषि मुनि देव दनुज नित सेवत  
गान करत श्रुति गुणराशी  
ब्रह्मा विष्णु निहारत निसिदिन  
कछु शिव हमकूँ फरमासी॥

ऋद्धि सिद्धि के दाता शंकर  
नित सत् चित् आनन्दराशी  
जिनके सुमिरत ही कट जाती  
कठिन काल यमकी फांसी॥

त्रिशूलधरजी का नाम निरन्तर  
प्रेम सहित जो नर गासी  
दूर होय विपदा उस नर की  
जन्म जन्म शिवपद पासी॥

कैलासी काशी के वासी  
विनाशी मेरी सुध लीजो  
सेवक जान सदा चरनन को  
अपनो जान कृपा कीजो॥

तुम तो प्रभुजी सदा दयामय  
अवगुण मेरे सब ढकियो ।  
सब अपराध क्षमाकर शंकर  
किंकर की विनती सुनियो॥

शीश गंग अर्धग पार्वती

सदा विराजत कैलासी

नंदी भृंगी नृत्य करत हैं

धरत ध्यान सुर सुखरासी ॥